



GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY  
PETROLEUM AND EXPLOSIVES SAFETY ORGANISATION(PESO)  
(Formerly Department of Explosives)  
Kendriya Bhavan, Block C-2, 3rd Floor  
CSEZ PO Kakkanad Dist. Ernakulam Ernakulam 682037  
Tele: 2427286 Fax: 2427276  
Email: dyccecochin@explosives.gov.in

No:E/SE/KL/22/464(E156780)

Dated : 17/02/2025

To,  
SHIVSA GRANITES LLP,  
Ward no. 14, House no. 452, Puthen veedu, Makkannoor, Kunnico P.O.  
Town/Village - Valakam  
Distt. KOLLAM, State. Kerala, Pincode-691322

Subject: **Possession for Use of Explosives from magazine at Survey No.:211/13, Block no. 26, Village/Town. VALAKAM, KOTTARAKKARA TALUK, Distt. KOLLAM, State Kerala Licence No.: E/SE/KL/22/464(E156780) granted in Form LE-3 of Explosives Rules, 2008 -Endorsement regarding**

Sir(s),

Reference memo No.: E/SE/KL/22/464(E156780) Dated 13/02/2025 from Dy. Chief Controller of Explosives, Ernakulam and inspection of the subject premises by an officer of this organization on 01/02/2025.

The subject licence No. E/SE/KL/22/464(E156780) valid upto **31st March 2029** duly endorsed as required under Rule 107(3) of the Explosives Rules 2008 is forwarded herewith.

For further renewal of licence, please submit following documents so as to reach **this office** on or before **31/03/2029**.

- Application in Form RE-1 duly filled in and signed.
- Licence fees renewable for one to five years, to be submitted online through e-payment facility available on online application portal under the Explosives Rules, 2008.
- Original licence with approved plan.
- In this connection, please also refer to Rule 112 of Explosives Rules, 2008.
- Indent for purchase of explosives shall be placed in RE-11 with the supplier and copy of the same shall be sent to this office.(Not applicable for fireworks store house)
- Please submit quarterly returns of explosives in RE-7 at the end of every quarter so as to reach this office by 10th of the succeeding quarter.(Not applicable for fireworks store house)
- All blasting operations shall be carried out by a competent person holding a valid shot firer's permit granted under above rules. However, blasting operations in mines coming under the purview of the Mines Act 1952, the blaster shall have qualifications prescribed in the regulations framed under the said Act.

Yours faithfully,

(Deepak Kumar)  
Controller of Explosives  
For Dy. Chief Controller of Explosives  
Ernakulam

Copy Forwarded to:

1. District Magistrate, KOLLAM, Kerala with reference to his Noc No: 2 Dated: 07/12/2024.

For Dy. Chief Controller of Explosives,  
Ernakulam

[For more information regarding status, fees and other details, please visit our web site <http://explosives.gov.in>]

**Note :- This is system generated document does not require physical signature. Applicant may take printout for their records.**

Digitally signed by Deepak Kumar  
Reason: Licence No. : E/SE/KL/22/464  
Location:Ernakulam [E156780]  
Date:17-02-2025 10:16:54 AM

अनुज्ञापि प्ररूप एल. ई.-3 | LICENCE FORM LE-3

(विस्फोटक नियम, 2008 की अनुसूची 4 के भाग 1 के अनुच्छेद 3(क) से (घ) देखिए।)  
(See article 3(a) to (d) of Part 1 of Schedule IV of Explosives Rules, 2008)


(ग) उपयोग के लिए एक समय पर वर्ग 1, 2, 3, 4, 5 या वर्ग 7 के विस्फोटक या किसी मैगजीन में वर्ग 6 के विस्फोटक रखने के लिए अनुज्ञापि  
Licence to possess : (c) for use, explosives of class 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 7 in a magazine

अनुज्ञापि सं. (Licence No.) : E/SE/KL/22/464(E156780)

वार्षिक फीस रुपए (Annual Fee Rs): 2400/-

1. Licence is hereby granted to

SHIVSA GRANITES LLP (अधिभोगी / Occupier : Sunil kumar), Ward no. 14, House no. 452, Puthen veedu, Makkannoor, Kunnicode  
P.O., Town/Village - Valakam, District-KOLLAM, State-Kerala, Pincode - 691322



को अनुज्ञापि अनुदत्त की जाती है।

2. अनुज्ञापिधारी की प्रास्थिति | Status of licensee : Partnership Firm

3. अनुज्ञापि निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विधिमान्य है। : possess for use of Nitrate Mixture, Safety Fuse, Detonators, - के  
Licence is valid only for the following purpose. : उपयोग के लिए

4. अनुज्ञापि विस्फोटकों के निम्नलिखित किस्मों, प्रकार और मात्रा के लिए विधिमान्य है।

Licence is valid for the following kinds and quantity of explosives: -- (क) (a)

क्र	नाम और विवरण	वर्ग और प्रभाग	उप-प्रभाग	मात्रा किसी एक समय में
Sr. No.	Name and Description	Class & Division	Sub-division	Quantity at any one time
1.	Nitrate Mixture	2, 0	0	300 Kg.
2.	Safety Fuse	6, 1	0	1500 Mtrs
3.	Detonators	6, 3	0	2000 Nos.

(ख) किसी एक कलेंडर मास में खरीदे जाने वाले विस्फोटक की मात्रा [अनुच्छेद 3(ख) और (ग) के अधीन अनुज्ञापि के लिए]

(b) Quantity of explosives to be purchased in a calendar month [applicable for licence under article 3(b) and (c)] :

3 times  
as above.

5. निम्नलिखित रेखाचित्र (रेखाचित्रों) से अनुज्ञापि परिसर की पुष्टि होती है।

The licensed premises shall conform to the following drawing(s) :

रेखाचित्र क्र. (Drawing No.) E/SE/KL/22/464(E156780)

दिनांक (Dated) 27/01/2025

6. अनुज्ञापि परिसर निम्नलिखित पते पर स्थित हैं। The licensed premises are situated at following address:

Survey No. 211/13, Block no. 26, ग्राम (Town/Village) : VALAKAM KOTTARAKKARA TALUK

पुलिस थाना (Police Station) : KOTTARAKKARA

जिला (District)

KOLLAM

राज्य (State)

Kerala

पिनकोड (Pincode)

691322

दूरभाष (Phone)

ई. मेल (E-Mail)

फैक्स (Fax)

7. अनुज्ञापि परिसर में निम्नलिखित सुविधाएं अंतर्विष्ट हैं।

The licensed premises consist of following facilities.

A set of one B type (S. No.84) and one D type (S. No.1025) portable magazines fabricated  
by M/s Thekkans Engineering and Fabrication Works, Ernakulam.

8. अनुज्ञापि समय - समय पर यथासंशोधित विस्फोटक अधिनियम, 1884 और उनके अधीन विरचित विस्फोटक नियम, 2004 के उपबंधों, शर्तों और अतिरिक्त शर्तों और निम्नलिखित उपाबंधों के अधीन रहते हुए अनुदत्त की जाती है।

The licence is granted subject to the provision of Explosives Act 1884 as amended from time to time and the Explosives Rules, 2008 framed there under and the conditions, additional conditions and the following Annexures.

1. उपर्युक्त क्रम सं. 5 में यथा कथित रेखाचित्र (स्थान, सन्निर्माण संबंधी और अन्य विवरण दर्शित करते हुए)।

Drawings (showing site, constructional and other details) as stated in serial No. 5 above.

2. अनुज्ञापि प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित इस अनुज्ञापि की शर्तों और अतिरिक्त शर्तों।

Conditions and Additional Conditions of this licence signed by the licensing authority.

3. दूरी प्ररूप DE-2 | Distance Form DE-2.

9. यह अनुज्ञापि तारीख 31 मार्च 2029 तक विधिमान्य रहेगी। This licence shall remain valid till 31st day of March 2029.

यह अनुज्ञापि, अधिनियम या उसके अधीन विरचित नियमों या अनुसूची V के भाग 4 के प्रति निर्दिष्ट सेट-VII के अधीन तथा उपवर्णित इस अनुज्ञापि की शर्तों का अधिक्रमण करने या यदि अनुज्ञापि परिसर योजना या उससे संलग्न उपबंध में दर्शित विवरण के अनुरूप नहीं पाए जाने पर निलंबित या प्रतिसंहत की जा सकती है, जहां वह लागू हो।

This licence is liable to be suspended or revoked for any violation of the Act or Rules framed there under or the conditions of this licence as set forth under Set VIII, wherever applicable, referred to in Part 4 of Schedule V or if the licensed premises are not found conforming to the description shown in the plans and Annexure attached hereto.

तारीख | The Date - 27/01/2025

उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक | Dy. Chief Controller of Explosives  
Ernakulam

नवीनीकरण के पृष्ठांकन के लिए स्थान  
Space for Endorsement of Renewal

नवीकरण की तारीख  
Date of Renewal

समाप्ति की तारीख  
Date of Expiry

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और स्टाम्प  
Signature of licensing authority and stamp

**कानूनी चेतावनी :** विस्फोटकों को गलत ढंग से चलाने या उनका दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर दांडिक अपराध होगा।  
**Statutory Warning :** Mishandling and misuse of explosives shall constitute serious criminal offence under the law.

**Note :- This is system generated document does not require physical signature. Applicant may take printout for their records.**

मैगजीन में वर्ग 1,2,3,4,5,6, और 7 के विस्फोटकों को बिक्री या प्रयोग हेतु रखने के लिए प्ररूप एल.ई. 3 | अनुच्छेद 3 (ख) से (ग) | में मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या विस्फोटक नियंत्रक द्वारा प्रदान किए जाने वाले अनुज्ञप्ति सं. E/SE/KL/22/464(E156780) की शर्तें निम्नलिखित हैं।

The following are the conditions of licence number E/SE/KL/22/464(E156780) to possess for sale or use, explosives of Class 1,2,3, 4, 5, 6 and 7 in a magazine in Form LE-3 (articles 3(b) to (c) ) granted by Chief controller of Explosives or Controller of Explosives.

- परिसर में किसी भी समय विस्फोटकों की मात्रा अनुज्ञापन योग्य सामर्थ्य से अधिक नहीं होगी।  
The quantity of explosives on the premises at any one time shall not exceed the licensable capacity.
- विस्फोटकों के भंडारण के लिए प्रयुक्त होने वाली मैगजीन अनुसूची III और अनुज्ञप्ति के उपाबंध में विनिर्दिष्ट सुरक्षा दूरी बनाए रखना होगा।  
The magazine used for storage of explosives shall maintain safety distance specified in Schedule III and annexure to the licence.
- मैगजीन का प्रयोग उन सभी विस्फोटकों के, जो इस अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट है, रखे जाने के लिए और ऐसे रखे जाने से संबद्ध आधान या औजार या उपकरणों के रखे जाने के लिए ही किया जाएगा; अन्यथा नहीं।  
The magazine shall be used only for keeping all explosives specified in this licence and of receptacles for, or tools or implements for work connected with the keeping of such explosives.
- पैकजों को खोलने का कार्य और विस्फोटकों को तौलने तथा पैक करने का कार्य मैगजीन में नहीं किया जाएगा।  
The opening of packages and the weighing and packing of explosives shall not be carried on in the magazine.
- दो या दो से अधिक वर्णन के विस्फोटकों को, जिन्हें मैगजीन में रखे जाने की अनुज्ञा दी जा सकती है, मैगजीन में तभी रखे जाएंगे जब उनमें से प्रत्येक को, ऐसे पदार्थ या स्वरूप का कोई मध्यवर्ती विभाजक लगाकर या उनके बीच ऐसा मध्यवर्ती स्थान छोड़कर, परस्पर पृथक कर दिया जाए कि किसी वजह से विस्फोटक में लगने वाली आग या होने वाला विस्फोट किसी अन्य वर्णन के विस्फोटक तक न पहुंच सके : परंतु –  
(घ) 2 (नाइट्रेट मिश्रण), वर्ग 3 (नाइट्रो योगिक) के विभिन्न विस्फोटक, वर्ग 6 प्रथम प्रभाग के अंतर्गत आने वाले सुरक्षा पलीते और वर्ग 6 प्रभाग 2 के अंतर्गत आनेवाले विस्फोटक प्रेरक पलीते, जिनमें कोई खुला लोहा या इस्पात नहीं है, एक दूसरे के साथ बिना किसी मध्यवर्ती विभाजक या स्थायन के रखे जा सकते हैं।  
(ङ) वर्ग 6 प्रभाग 3 के अंतर्गत आनेवाले विस्फोटक प्रेरक अलग रखे जाएंगे।  
(च) वर्ग 1 के अंतर्गत आने वाले बारूद को अलग रखा जाएगा।  
Two or more description or explosives which may be permitted to be kept in the magazine shall be kept only if they are separated from each other by an intervening partition of such substance or character, or by such intervening space, as will effectually prevent explosion or fire in the one communicating with the other; Provided that—  
(d) the various explosives of Class 2 (nitrate-mixture), Class 3 (nitro-compound), safety fuses belonging to Class 6 Division 1 and detonating fuses belonging to Class 6 Division 2 as do not contain any exposed iron or steel, may be kept with each other without any intervening partition or space ;  
(e) Detonators belonging to Class 6 Division 3 shall be kept separately.  
(f) Gun powder belonging to Class 1 shall be kept separately.
- वर्ग 3 (नाइट्रो योगिक) के विस्फोटकों को, उनके विनिर्माण की तारीख से एक वर्ष बीत जाने के पश्चात सिवाय अनुज्ञापन प्राधिकारी की विशेष मंजूरी के मैगजीन में नहीं रखा जाएगा।  
Explosives of Class 3 (nitro compound) shall not be kept in the magazine after the expiration of one year from the date of their manufacture except with the special sanction of licensing authority.
- वर्ग 3 (नाइट्रो योगिक) के विस्फोटकों को, उनके विनिर्माण की तारीख से एक वर्ष बीत जाने के पश्चात मैगजीन में तभी रखा जाएगा जब कि किसी विस्फोटक नियंत्रक ने इसके लिए विशेष मंजूरी दे दी हो।  
(i) जब ऐसी मंजूरी दे दी गई हो तो प्रत्येक निरीक्षण पर किसी विस्फोटक नियंत्रक से ऐसा लिखित प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिया जाए जिसमें दी गई मंजूरी के अंतर्गत आनेवाली अवधि दर्शित की गई हो और ऐसे प्रमाणपत्र के अनुज्ञप्तिधारी अपने पास रखेगा और मांग की जाने पर प्रस्तुत करेगा।  
(ii) जब कोई विस्फोटक मानक शुद्धता का न रह जाने के कारण या द्रवणीकरण या नाइट्रो ग्लाइसीन या द्रव नाइट्रो योगिक के निकल जाने के चिन्ह प्रकट होने के कारण मैगजीन में भण्डारित किए जाने के उपयुक्त नहीं रह जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी अपने ही व्यय पर ऐसे विस्फोटक के निपटारे के लिए ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो मुख्य नियंत्रक या विस्फोटक नियंत्रक जारी करें।  
Explosives of Class 3 (nitro compound) shall not be kept in the magazine after the expiration of one year from the date of their manufacture except with the special sanction of the Controller of Explosives.  
(i) When such sanction has been given, a written certificate showing the period covered by the sanction shall be obtained from the Controller of Explosives at each inspection, and shall be kept by the licensee and produced on demand.  
(ii) When an explosive owing to its being no longer of standard purity or owing to signs of liquefaction or of exuded nitro-glycerin or liquid nitro-glycerin or liquid nitrocompound is no longer fit for storage in the magazine or store house the licensee shall comply, at his own expense, with such directions as to its disposal as the Chief Controller or Controller of Explosives may issue.
- मैगजीन के भीतरी भाग या उसमें लगी बेंचें, शेल्फों और उसकी फिटिंग का इस प्रकार सन्निर्माण किया जाएगा या उन्हें इस प्रकार अंतरित या अवतरित किया जाएगा कि विस्फोटक का किसी लोहे या इस्पात के साथ संपर्क रोका जा सके। भीतरी भाग में लगी बेंचें, शेल्फें और फिटिंग यथासाध्य ग्रिट से मुक्त एवं साफ रखे जाएंगे तथा ऐसे विस्फोटक, जो जल से खतरनाक रूप में प्रभावित हो सकते हैं, इस बाबत सम्यक सावधानी बरती जाएगी कि वहां कोई जल मौजूद न रहे : परंतु किसी लोहे या इस्पात के खुले होने के विरुद्ध सावधानी से संबंधित इस शर्त का वह भाग ऐसे किसी भवन में बांधेकर नहीं होगा जिसमें वर्ग 6 (गोला बारूद) के प्रथम के विस्फोटक से भिन्न कोई विस्फोटक रखा गया है।  
The interior of the magazine and the benches, shelves and fittings therein shall be so constructed or so lined or covered as to prevent the exposure of any iron or steel contact with the explosives. Such interior, benches, shelves and fittings shall so far as is reasonably practicable, be kept free from grit and shall otherwise be clean; and in the case of any explosives liable to be dangerously affected by water, due precautions shall be taken to exclude water there from; Provided that so much of this condition as relates to precautions against the exposure of any iron or steel shall not be obligatory in a building in which no explosive other than explosive of the 1st Division 6th (Ammunition) Class is kept.
- यदि तडित चालक का परीक्षण विस्फोटक नियंत्रक करता है तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसे परीक्षण के लिए विहित फीस का संदाय करेगा यदि परीक्षण असमाधानकारी साबित होता है तो उतनी ही फीस अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पश्चात्कर्त्त प्रत्येक परीक्षण के लिए तब तक दी जाती रहेगी जब तक कि परीक्षण अधिकारी तडित चालक को समाधानप्रद घोषित नहीं कर देता :  
परंतु किसी एक परीक्षण के लिए देय फीस किसी एक दिन के दौरान किसी चालक के किए गए सभी परीक्षणों के लिए प्रभार्य होगा :  
परंतु यह और कि यदि दो या अधिक तडित चालक एक ही मैगजीन से संबद्ध हैं तो ऐसे सभी चालकों के परीक्षण के लिए फीस ऐसी किसी फीस से अधिक नहीं होगी जो किसी एक तडित चालक के परीक्षण के लिए हर स्थिति में विहित की गई है।  
If the lighting conductor is tested by the Controller of Explosives, the licensee shall pay the fees prescribed for test. In the even of the test proving unsatisfactory, the same fees shall be payable by the licensee for each subsequent test until the lighting conductor is passed by the testing officer as satisfactory:  
Provided that the fees payable for a single test shall be charged for all tests made on a conductor during any one day :  
Provided further that where two or more lighting conductors are attached to one and the same magazine, the fee for the testing of all such conductors shall not exceed the fee prescribed in this condition for testing a single lighting conductor.
- उपयुक्त तथा जब रहित कार्यकरण वस्त्रों, उपयुक्त जूतों के प्रयोग द्वारा तथा तलाशी लेकर या अन्यथा अथवा ऐसे किन्हीं साधनों द्वारा इस बाबत सम्यक उपबंध किया जाएगा कि फैक्ट्री परिसर में अग्नि, दियासलाई अथवा ऐसी कोई वस्तुएं या पदार्थ, जिससे विस्फोट हो सकता है या आग लग सकती हो, किन्तु इस शर्त के कारण ऐसी संरचना, स्थिति या स्वरूप में किसी कृत्रिम बत्ती का प्रवेश वर्जित नहीं है जिससे आग लगने या विस्फोट होने का खतरा न हो :  
परंतु इस शर्त का वह भाग, जो लोहे या इस्पात के अपवर्जन को लागू होता है, ऐसे किसी भवन के संबंध में बाध्य कर नहीं होगा जिससे भिन्न कोई विस्फोटक नहीं रखा गया है।  
Due provisions shall be made, by the use of suitable working clothes without pockets, suitable shoes and by searching or otherwise or by such means, for preventing the introduction into danger area of the factory premises of fire, Lucifer matches or any substance or article likely to cause explosion or fire, but this condition shall not prevent the introduction of an artificial light of such construction, position or character as not to cause any danger of fire or explosion:  
Provided that so much of this condition as applies to the exclusion of iron or steel, shall not be obligatory in a building in which no explosive other than an explosive of the 1st Division of the 6th (Ammunition) Class is kept.

11. अनुज्ञापितधारी प्ररूप आर.इ.-3 और आर.इ.-4 या आर.इ.-5, जैसी स्थिति हो, में सभी विस्फोटकों का अभिलेख और लेखा रखेगा और विस्फोटक नियम, 2008 के अधीन प्राधिकृत किसी भी अधिकारी के समक्ष उसके द्वारा ऐसा करने की मांग की जाने पर स्टॉक पुस्तक और अभिलेख प्रस्तुत करेगा। स्टॉक पुस्तक विहित प्रोफार्मा में पृष्ठ संख्यांकित होगी।  
The licensee shall keep records and accounts of all explosives in Forms RE-3 and RE-4 or RE-5, as the case may be, and exhibit the stock books and records to any of the officers authorised under the Explosives Rules, 2008 whenever such officer may call upon him to do so. The stock books in the prescribed proforma shall be page numbered.
12. परिसरों में कोई परिवर्तन या तबदीली अनुज्ञापन प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन बिना नहीं की जाएगी और अनुज्ञापितधारी ऐसी किसी शर्त का अनुपालन करेगा जो इस निमित्त अनुज्ञापन प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करें।  
No changes or alterations shall be carried out to the premises without prior approval of the licensing authority and the licensee shall comply with any condition that may be specified by the licensing authority in this behalf.
13. मैगजीन सभी समयों पर अच्छी मरम्मत की स्थिति में बनाई रखी जाएगी (या अच्छी हालत में बनाई रखी जाएगी)। यदि किसी कारणवश किसी विस्फोटक के भण्डारण के लिए मैगजीन अनुपयुक्त हो जाती है तो अनुज्ञापितधारी इस बात की सूचना अनुज्ञापन प्राधिकारी को तुरंत देगा।  
Magazine shall at all times be kept in state of good repair (or maintained in good condition). The licensee shall report to licensing authority forthwith, if the magazine becomes unfit for storage of any explosives for any reason whatsoever.  
मैगजीन का अनुज्ञापितधारी इन नियमों के नियम 24 के उप-नियम 3 के अनुसार त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।  
The licensee of the magazine shall submit quarterly return as per sub-rules (3) and (4) of rule 24 of these rules.
14. यदि सुरक्षा दूरी का कोई अधिक्रमण होता है तो उसकी सूचना अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवश्यक सलाह और कार्यवाही के लिए तुरंत दी जाएगी।  
Any encroachment of the safety distance shall be immediately communicated to the licensing authority for necessary advice and action.
15. यदि कोई विस्फोटक विनष्ट हुआ अथवा अनुपयोगी जाया जाता है तो उसकी सूचना अनुज्ञापन प्राधिकारी को, सलाह प्राप्त करने के लिए, तुरंत दी जाएगी।  
The licensing authority shall be immediately informed for advice if any explosive is found deteriorated or unserviceable.
16. विस्फोटकों के पैकेटों के चट्टे इस प्रकार लगाए जाएंगे कि कम से कम एक व्यक्ति भण्डार किए गए सभी पैकेजों की हालत की जांच करने और प्रत्येक पैकेज की विनिर्माण विशिष्टियों को पढ़ने के लिए उनके बीच से होकर आ जा सके।  
The explosive packages shall be stocked in such a way so as to allow movement of at least one person to check the condition of all packages stored and to read the manufacture particulars of each package.  
तड़ित चालकों की भूमि के लिए प्रतिरोध यथासंभव न्यूनतम होगा और किसी भी दशा में 10 ओह्म से अधिक नहीं होगा।  
The resistance of the lightning conductor to earth shall be as low as possible and in no case be more than 10 ohms.
17. विस्फोटक के चारों ओर 15 मीटर की दूरी के अंतर्गत कोई शुल्क घास या झाड़ी या ज्वलनशील सामग्री नहीं रहने दी जाएगी।  
A distance of 15 meters surrounding the magazine or store house shall be kept clear of dried grass or bush or flammable materials.
18. विस्फोटकों के प्रत्येक पैकेट की, जब उसे मैगजीन के भीतर लिया जा रहा हो, ठीक दशा जानने के लिए परीक्षा की जाएगी।  
Every package of explosive at the time of bringing inside the magazine shall be examined for its sound condition.
19. किसी मैगजीन / भंडारगृह में किसी एक समय में चार व्यक्तियों से अधिक को नहीं रहने दिया जाएगा।  
Not more than 4 persons shall be allowed inside the magazine or store house at any one time.
20. विस्फोटकों के खाली पैकेजों को शीघ्रतिथीय वहां से हटा दिया जाएगा और नष्ट कर दिया जाएगा।  
Empty packages of the explosives shall be removed at the earliest and destroyed.
21. अनुज्ञापितधारी और कर्मचारियों को परिसर के भीतर आपातकाल के दौरान की जाने वाली प्रक्रियाओं से अवगत होना चाहिए।  
The licensee and the employee shall be conversant with procedure to be taken during the emergency within the premises.
22. निरीक्षण या नमूना अधिकारी को सभी युक्तियुक्त समयों पर अनुज्ञापन परिसर में अबाध रूप से पहुंचने दिया जाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और सुरक्षा स्थितियों को सम्यक्तः अनुपालन किया जा रहा है, अधिकारी को प्रत्येक सुविधा प्रदान की जाएगी।  
Free access to the licensed premises shall be given at all reasonable times to any inspecting or sampling officer and every facility shall be afforded to the officer for ascertaining that the provisions of the Act and these rules and the safety conditions are duly observed.
23. यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी या विस्फोटक नियंत्रक अनुज्ञापितधारी को अनुज्ञापन परिसरों या मशीनरी, टूल या उपकरण में ऐसी कोई मरम्मत या परिवर्धन या परिवर्तन करने या सिफारिशों को लागू करने को लिखित रूप में सूचित करता है जो परिसर के अंदर या बाहर या व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, अनुज्ञापितधारी सिफारिशों को निष्पादित करेगा और विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन रिपोर्ट ऐसे प्राधिकारी को देगा।  
If the licensing authority or a Controller of Explosives informs in writing, the holder of the licence to execute any repairs or to make any additions or alterations to the licensed premises or machinery, tools or apparatus or carry out recommendations, which are in the opinion of such authority may pose unacceptable risk and so necessary for the safety of either on-site or off-site of the premises or persons, the holder of the license shall execute the recommendations and report compliance within the period specified by such authority.
24. अनुज्ञापितधारी मैगजीन में रखने और बिक्री के लिए प्राधिकृत विस्फोटक सूची में उल्लिखित अनुज्ञापन फैक्टरी या कंपनी से प्राधिकृत विस्फोटक / आतिशबाजी या सुरक्षा पल्लोते खरीदेगा।  
The licensee shall purchase authorised explosives/ fireworks or safety fuse as mentioned in the list authorised explosives from a licensed factory or company for possession and sale from the magazine.
25. निम्न से अधिक ध्वनि स्तर उत्पादित करने वाले आतिशबाजियों पटाखों की बिक्री और रखने के लिए –  
(क) जो फटने की जगह से चार मीटर की दूरी पर है, 125 डी.बी.(ए1) या 145 डी.बी.(सी)पी.के. प्रतिबंधित होंगे;  
(ख) श्रृंखला (जुड़े हुए पटाख) को गठन करने वाले व्यक्तिगत पटाखों के लिए उपर्युक्त उल्लिखित सीमा 5 लॉग<sub>10</sub>(एन) डी.बी. (सी) पी.के. प्रतिबंधित होंगे;  
The possession and sale of fire-crackers generating noise level exceeding;  
a) 125 dB(AI) or 145 dB(C)pk at 4 meters distance from the point of bursting shall be prohibited;  
b) For individual fire-cracker constituting the series (joined fire-crackers), the above mentioned limit be reduced by 5 log<sub>10</sub> (N) dB, where N = number of crackers joined together.
26. आग या विस्फोट द्वारा दुर्घटना या नुकसान पटाखों की कमी या चोरी, तुरंत पास के पुलिस थाने और अनुज्ञापन प्राधिकारी और अनुज्ञापन प्राधिकारी के स्थानीय कार्यालय को रिपोर्ट की जाएगी।  
Accidents by fire or explosion and losses, shortage or theft of explosives shall be immediately reported to the nearest police station and the licensing authority and local office of the licensing authority.

#### अतिरिक्त शर्तें / Additional Conditions :

1. अनुज्ञापितधारी विदेशी मूल के आतिशबाजी को न प्रदर्शित करेगा, न रखेगा और न ही उसकी बिक्री करेगा। The licensee shall not exhibit, possess and sell fireworks of foreign origin.

कृते उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक  
For Dy. Chief Controller of Explosives  
एरणाकुलम | Ernakulam

**Note :- This is system generated document does not require physical signature. Applicant may take printout for their records.**

**Form DE-2**  
**(See rule 113 of the Explosives Rules, 2008)**  
(Distance Form to be attached to the licence)

Safety distances required to be kept clear around magazine for high explosives or fire works or factory licence number E/SE/KL/22/464(E156780) in form LE-3 granted to SHIVSA GRANITES LLP, Ward no. 14, House no. 452, Puthen veedu, Makkannoor, Kunnicoode P.O., Kerala-691322 .

Type of Structure(s)		Safety distances meters	
<b>Inside Safety Distances(ISD)</b>		<b>M</b>	<b>UM</b>
1	Room or Workshop used in Connection with the Magazine	16	24
2	Any other Explosives Magazine or store House or Factory of the Applicant		
3	Magazine Office		
<b>Middle Safety Distances(MSD)</b>			
4	Magazine Keeper's or Chowkidar's Dwelling house		
5	Railway including Minerals and Private Railways		
6	Canal (in active use) or other navigable water		
7	Dock or Pier or Jetty		
8	Public Highway or Public Road		45
9	Private Road which is PRINCIPAL means of access to a Temple, Mosque, Church, Gurudwara or other places of worships, Hospital, College, School or Factory		
10	River Embankment or Sea Embankment or Public Well		
11	Reservoir or Bounded tank/rope way		
12	Windmill or Solar panel for Power Generation		
<b>Outside Safety Distances(OSD)</b>			
13	Dwelling House		
14	Govt. and Public Building		
15	Temple, Mosque, Church or Gurudwara or other Places of Worships		
16	Shops, Market place, Public recreation and Sports Ground, College, School, Hospital, Theater, Cinema or other Building where the public are accustomed to assemble		
17	Factory		
18	Buildings or Works used for the Storage in Bulk of Petroleum, Sprit, gas, or other inflammable or hazardous substances		68
19	Building or Works used for Storage and Manufacture of Explosives or of articles which contain Explosives		
20	Aerodrome		
21	Furnace, Kiln or Chimney		
22	Quarry or mine pit head		
23	Power House or Electric Substation		
24	Wireless Station		
25	Warehouse or other Storage Building		
26	Any other Protected works		
<b>Overhead Electric lines</b>			
27	Electric Power over head Transmission Lines above 440V		68
28	Electric Power over head Transmission Lines upto 440V		15

The Date : 27/01/2025

For Dy. Chief Controller of Explosives  
Ernakulam

**Note :- This is system generated document does not require physical signature. Applicant may take printout for their records.**